



खंड 28

4 जनवरी 2013

संख्या 1

1. भारतीय रिज़र्व बैंक – देयताएं और आस्तियां

(₹ बिलियन)

मद	2011	2012		घट – बढ़	
	30 दिसम्बर	21 दिसम्बर	28 दिसम्बर	सप्ताह	वर्ष
	1	2	3	4	5
1 जारी नोट	10,067.67	11,338.35	11,272.70	-65.65	1,205.03
1.1 संचलन में नोट	10,067.58	11,338.24	11,272.62	-65.62	1,205.04
1.2 बैंकिंग विभाग में रखे नोट	0.09	0.11	0.08	-0.03	-0.01
2 जमा राशियां					
2.1 केंद्र सरकार	1.00	900.45	825.60	-74.85	824.60
2.2 बाजार स्थिरीकरण योजना	—	—	—	—	—
2.3 राज्य सरकार	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00
2.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	3,506.10	3,026.74	2,972.61	-54.13	-533.49
2.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	39.81	29.72	30.88	1.16	-8.93
2.6 अन्य बैंक	168.13	145.36	140.47	-4.89	-27.66
2.7 अन्य	116.94	120.34	119.56	-0.78	2.62
3 अन्य देयताएं	6,193.90	7,303.59	7,230.79	-72.80	1,036.89
कुल देयताएं / आस्तियां	20,093.97	22,864.97	22,593.05	-271.92	2,499.08
1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	14,026.70	14,473.28	14,414.07	-59.21	387.37
2 सोने के सिक्के और सोना-चांदी	1,418.06	1,516.00	1,516.00	—	97.94
3 रूपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित)	4,388.88	6,496.83	6,322.72	-174.11	1,933.84
4 ऋण और अग्रिम					
4.1 केंद्र सरकार	109.86	—	—	—	-109.86
4.2 राज्य सरकारें	0.42	7.41	7.10	-0.31	6.68
4.3 नाबार्ड	—	—	—	—	—
4.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	58.79	286.84	244.25	-42.59	185.46
4.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	—	—	—	—	—
4.6 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	—	—	—	—	—
4.7 भारतीय निर्यात-आयात बैंक	—	—	—	—	—
4.8 अन्य	19.97	25.18	25.42	0.24	5.45
5 खरीदे और भुनाए गए बिल					
5.1 वाणिज्यिक	—	—	—	—	—
5.2 खजाना	—	—	—	—	—
6 निवेश	13.20	13.20	13.20	—	—
7 अन्य आस्तियां	58.11	46.23	50.27	4.04	-7.84

2. विदेशी मुद्रा भंडार

मद	28 दिसम्बर 2012 को		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़					
			सप्ताह		मार्च 2012 की समाप्ति पर		वर्ष	
	बिलियन ₹	मिलि.अम. डॉलर	बिलियन ₹	मिलि.अम. डॉलर	बिलियन ₹	मिलि.अम. डॉलर	बिलियन ₹	मिलि.अम. डॉलर
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 कुल भंडार	16,257.6	296,578.4	-62.0	39.6	1,196.3	2,180.9	452.9	-110.3
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	14,370.8	262,013.7	-59.0	63.9	1,065.7	1,945.0	364.3	-919.6
1.2 स्वर्ण	1,516.0	27,803.1	—	—	133.5	780.0	97.9	1,182.8
1.3 विशेष आहरण अधिकार	243.3	4,436.1	-1.9	-15.9	14.7	-33.2	7.4	7.1
1.4 आइएमएफ में प्रारक्षित अंश की स्थिति	127.5	2,325.5	-1.1	-8.4	-17.6	-510.9	-16.7	-380.6

3. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास नकद जमा शेष

(राशि ₹ बिलियन में)

28 दिसम्बर 2012 को समाप्त होने वाले पखवाड़े के लिए औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अपेक्षाएँ = ₹ 2,903.7 बिलियन	2012													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	15 दिसम्बर	16 दिसम्बर	17 दिसम्बर	18 दिसम्बर	19 दिसम्बर	20 दिसम्बर	21 दिसम्बर	22 दिसम्बर	23 दिसम्बर	24 दिसम्बर	25 दिसम्बर	26 दिसम्बर	27 दिसम्बर	28 दिसम्बर
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास वास्तविक नकदी शेष	3,048.3	3,048.3	2,874.0	2,910.3	3,003.8	2,970.5	3,026.9	3,078.5	3,078.5	2,913.4	2,913.4	2,755.5	2,690.8	2,972.8
औसत दैनिक आरक्षित नकदी अनुपात के प्रतिशत के रूप में नकदी शेष	105.0	105.0	99.0	100.2	103.5	102.3	104.2	106.0	106.0	100.3	100.3	94.9	92.7	102.4

4. अनुसूचित वाणिज्य बैंक – भारत में कारोबार

(₹ बिलियन)

मद	14 दिसम्बर 2012 को बकाया	निम्नलिखित की तुलना में घटबढ़				
		परखवाड़े में	वित्त वर्ष में अब तक		वर्ष-दर-वर्ष	
			2011-2012	2012-2013	2011	2012
	1	2	3	4	5	6
1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं						
1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाशियां	796.6	9.5	-17.6	-45.9	54.8	76.8
1.2 बैंकों से उधार	205.4	-108.4	8.0	-113.8	12.1	-99.8
1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	67.4	-16.6	29.0	6.0	29.2	-32.9
2 अन्य के प्रति देयताएं						
2.1 कुल जमाशियां	64,339.3	-89.0	4,683.1	5,248.5	8,700.5	7,576.5
2.1.1 वृद्धि (प्रतिशत)		-0.1	9.0	8.9	18.1	13.3
2.1.1.1 मांग	6,131.1	-118.0	-800.0	-122.2	-168.1	514.1
2.1.1.2 मीयादी	58,208.3	29.0	5,483.2	5,370.8	8,868.7	7,062.5
2.2 उधार	1,983.2	-40.4	388.7	-81.3	460.6	281.1
2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	4,062.4	194.5	154.4	328.5	219.9	490.0
3 रिज़र्व बैंक से उधार	169.9	-58.6	-12.0	82.4	-3.9	131.6
4 रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं जमा शेष	3,679.3	396.5	374.3	85.3	494.8	-190.1
4.1 पास में नकदी	423.4	-46.6	69.3	62.1	75.6	50.6
4.2 रिज़र्व बैंक के पास जमा शेष	3,255.9	443.1	305.0	23.2	419.3	-240.7
5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां						
5.1 अन्य बैंकों में जमाशेष	782.2	24.2	19.2	75.6	81.9	201.6
5.2 मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	175.0	-57.6	67.2	-57.8	54.9	-58.3
5.3 बैंकों को अग्रिम	71.0	-3.0	-60.8	-64.9	3.4	6.1
5.4 अन्य आस्तियां	672.4	-4.0	43.1	-31.6	239.7	-61.5
6 निवेश	19,565.3	-116.9	1,784.1	2,187.4	2,344.8	2,765.0
6.1 वृद्धि (प्रतिशत)		-0.6	11.9	12.6	16.2	16.5
6.1 सरकारी प्रतिभूतियों में	19,533.0	-119.0	1,794.5	2,182.8	2,358.2	2,767.0
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	32.3	2.2	-10.4	4.6	-13.3	-2.0
7 बैंक ऋण	49,626.5	35.8	3,262.3	3,508.0	6,237.5	6,943.3
7.1 वृद्धि (प्रतिशत)		0.1	8.3	7.6	17.1	16.3
7.1.1 खाद्य ऋण	1,086.8	9.0	186.2	273.8	203.8	257.8
7.1.2 खाद्येतर ऋण	48,539.7	26.8	3,076.1	3,234.2	6,033.6	6,685.5
7.1.3 ऋण, कैश-क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट	47,835.4	1.6	3,173.6	3,475.7	5,969.5	6,721.7
7.2 देशी बिल-खरीदे गए	225.5	-1.1	10.8	62.1	26.4	80.2
7.3 भुनाए गए	940.2	-3.0	28.9	-39.6	159.0	112.6
7.4 विदेशी बिल-खरीदे गए	182.3	6.9	11.1	-29.4	17.4	-14.7
7.5 भुनाए गए	443.1	31.4	37.8	39.2	65.2	43.4

5. अनुपात और दर

(प्रतिशत)

मद/समाप्त सप्ताह	2011	2012				
	30 दिसम्बर	30 नवम्बर	7 दिसम्बर	14 दिसम्बर	21 दिसम्बर	28 दिसम्बर
	1	2	3	4	5	6
अनुपात						
आरक्षित नकदी निधि अनुपात	6.00	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25
सांविधिक चलनिधि अनुपात	24.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00
नकदी-जमाशेष अनुपात	6.66	5.10	..	5.72	..	..
ऋण-जमाशेष अनुपात	74.87	76.97	..	77.13	..	..
वृद्धिशील ऋण-जमाशेष अनुपात	68.02	65.05	..	66.84	..	..
निवेश-जमाशेष अनुपात	29.06	30.55	..	30.41	..	..
वृद्धिशील निवेश-जमाशेष अनुपात	30.93	43.17	..	41.68	..	..
दर						
नीतिगत रिपो दर	8.50	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
रिवर्स रिपो दर	7.50	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
मार्जिनल स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर	9.50	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
बैंक दर	6.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
आधार दर	10.00/10.75	9.75/10.50	9.75/10.50	9.75/10.50	9.75/10.50	9.75/10.50
सावधी जमा दर >1 वर्ष	8.25/9.25	8.50/9.00	8.50/9.00	8.50/9.00	8.50/9.00	8.50/9.00
बचत जमाशेष दर	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
मांग मुद्रा दर (भारांकित औसत)	9.10	8.04	8.03	7.97	8.06	8.07
91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	8.48	8.19	8.19	8.19	8.14	8.19
182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	..	..	8.14	..	8.14	..
364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	8.35	8.11	..	8.05	..	8.01
10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति आय	8.56	8.18	8.16	8.14	8.14	8.11
भारिबैं संदर्भ दर और फार्वर्ड प्रीमियम						
आईएनआर-अमरीकी डॉलर स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	53.26	54.53	54.20	54.39	55.09	54.85
आईएनआर-यूरो स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	68.90	70.89	70.22	71.29	72.77	72.63
अमरीकी डॉलर का फार्वर्ड प्रीमियम 1-माह	8.11	7.26	7.20	7.28	7.84	7.77
3-माह	6.76	6.42	6.64	6.77	6.68	6.78
6-माह	6.23	6.24	6.49	6.66	6.57	6.42

6. मुद्रा स्टॉक : घटक और स्रोत

(₹ बिलियन)

मद	निम्न को बकाया		निम्न की तुलना में घट-बढ़									
	2012		पखवाड़ा		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
	31 मार्च	14 दिसम्बर	राशि	%	2011-2012	2012-2013	2011	2012	2011	2012	2011	2012
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
एम₃	73,592.0	79,867.4	75.9	0.1	5,673.9	8.7	6,275.4	8.5	10,202.0	16.9	9,152.4	12.9
1 घटक												
1.1 जनता के पास मुद्रा	10,265.0	11,037.8	159.3	1.5	773.5	8.5	772.8	7.5	1,107.0	12.6	1,146.0	11.6
1.2 बैंकों के पास मांग जमा	7,049.1	6,959.8	-118.4	-1.7	-842.0	-11.6	-89.3	-1.3	-125.2	-1.9	573.2	9.0
1.3 बैंकों के पास मीयादी जमा	56,249.7	61,845.2	33.8	0.1	5,767.2	11.9	5,595.6	9.9	9,242.0	20.5	7,420.3	13.6
1.4 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमा	28.2	24.5	1.1	4.9	-24.9	-68.1	-3.7	-13.1	-21.8	-65.1	12.9	110.2
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	23,695.5	26,562.2	500.4	1.9	2,268.3	11.4	2,866.8	12.1	4,088.1	22.7	4,455.0	20.2
2.1.1 रिज़र्व बैंक	5,357.4	5,972.4	614.0	11.5	414.8	10.5	615.0	11.5	1,672.4	61.8	1,592.1	11.5
2.1.2 अन्य बैंक	18,338.1	20,589.8	-113.6	-0.5	1,853.5	11.7	2,251.7	12.3	2,415.7	15.8	2,862.9	16.2
2.2 वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण	49,594.3	53,256.0	19.2	0.0	3,574.7	8.4	3,661.7	7.4	6,712.7	17.1	7,314.6	15.9
2.2.1 रिज़र्व बैंक	39.6	43.5	-11.0	-20.2	-1.7	-7.7	3.9	10.0	3.7	22.9	23.6	117.9
2.2.2 अन्य बैंक	49,554.7	53,212.5	30.2	0.1	3,576.3	8.4	3,657.8	7.4	6,708.9	17.1	7,291.0	15.9
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	15,437.8	16,324.1	78.5	0.5	2,108.9	15.1	886.3	5.7	2,329.8	17.0	281.8	1.8
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं	142.7	150.5	-	-	11.5	9.0	7.7	5.4	16.2	13.2	11.7	8.5
2.5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुद्रा देयताएं	15,278.3	16,425.4	522.2	3.3	2,289.5	20.4	1,147.1	7.5	2,944.8	27.9	2,910.6	21.5
2.5.1 रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रा देयताएं	6,038.4	7,179.0	66.9	0.9	2,442.4	66.3	1,140.6	18.9	2,587.6	73.1	1,053.1	17.2

7. आरक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(₹ बिलियन)

मद	निम्न को बकाया		निम्न की तुलना में घट-बढ़									
	2012		सप्ताह		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
	31 मार्च	28 दिसम्बर	राशि	%	2011-2012	2012-2013	2011	2012	2011	2012	2011	2012
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आरक्षित मुद्रा	14,271.7	14,582.1	-124.2	-0.8	174.4	1.3	310.4	2.2	1,524.6	12.3	639.5	4.6
1 घटक (1.1+1.2+1.3)												
1.1 संचलन में करेंसी	10,680.6	11,423.1	-65.6	-0.6	709.7	7.5	742.5	7.0	1,136.6	12.5	1,216.8	11.9
1.2 रिज़र्व बैंक के पास बैंक की जमा	3,562.9	3,144.0	-57.8	-1.8	-521.1	-12.3	-418.9	-11.8	401.4	12.1	-570.1	-15.3
1.3 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमा	28.2	15.1	-0.8	-4.9	-14.3	-39.0	-13.1	-46.6	-13.4	-37.6	-7.2	-32.3
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण	5,357.4	5,504.7	-99.7		535.1		147.3		1,861.1		1,004.1	
2.1.1 रिज़र्व बैंक द्वारा केंद्र को दिया गया निवल ऋण	5,344.1	5,498.0	-99.4		560.3		153.9		1,860.7		997.4	
2.2 बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण	88.1	282.7	-42.4		18.5		194.6		24.7		190.9	
2.2.1 रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों को दिया गया ऋण	48.5	245.4	-42.6		7.5		196.9		8.3		186.3	
2.3 रिज़र्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	14,722.0	15,929.8	-59.2	-0.4	2,158.9	16.2	1,207.9	8.2	2,425.9	18.6	485.3	3.1
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता	142.7	150.5	-	-	11.5	9.0	7.7	5.4	15.0	12.1	11.7	8.5
2.5 रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रा देयता	6,038.4	7,285.5	-77.0	-1.0	2,549.5	69.2	1,247.1	20.7	2,802.1	81.7	1,052.5	16.9

8. भारिबैं द्वारा चलनिधि परिचालन

(₹ बिलियन)

दिनांक	चलनिधि समायोजन सुविधा		एमएसएफ	स्थायी चलनिधि सुविधा	ओएमओ (तत्काल)		निवल आपूर्ति (+) / अवशोषण (-) (1+3+4+6-2-5)
	रिपो	रिवर्स रिपो			विक्रय	क्रय	
	1	2	3	4	5	6	7
24 दिसम्बर 2012	1503.90	—	—	-29.40	—	79.12	1553.62
26 दिसम्बर 2012	1355.35	1.55	—	-3.50	—	—	1350.31
27 दिसम्बर 2012	1309.80	2.45	—	-3.07	—	—	1304.28
28 दिसम्बर 2012	1412.80	22.45	—	-6.40	—	—	1383.95

9. प्रमुख मूल्य सूचकांक

मद	2011		2012		प्रतिशत अंतर		
	अक्तूबर	नवम्बर	अक्तूबर	नवम्बर	माह	मार्च	वर्ष
	1	2	3	4	5	6	7
1 थोक मूल्य सूचकांक (2004-05=100)	157.0	157.4	168.7	168.8	0.1	4.8	7.2
1.1 प्राथमिक वस्तुएं	203.5	201.8	220.2	220.8	0.3	6.3	9.4
1.2 ईंधन और बिजली	170.0	171.6	189.9	188.8	-0.6	6.2	10.0
1.3 विनिर्मित उत्पाद	139.6	140.4	147.9	148.0	0.1	3.8	5.4
2 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2010=100)	113.8	114.1	124.9	125.4	0.4	8.6	9.9
2.1 ग्रामीण	115.2	115.4	126.6	126.9	0.2	9.2	10.0
2.2 शहरी	112.0	112.5	122.6	123.4	0.7	7.7	9.7
3 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2001=100)	198.0	199.0	217.0	218.0	0.5	8.5	9.5

10. जमा प्रमाणपत्र

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (₹ बिलियन)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ बिलियन)	व्याज दर (प्रतिशत)
		1	2
16 नवम्बर 2012	3,408.5	101.7	8.30 - 8.70
30 नवम्बर 2012	3,066.1	429.6	8.29 - 8.90

11. वाणिज्यिक पेपर

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (₹ बिलियन)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ बिलियन)	व्याज की दर (प्रतिशत)
		1	2
30 नवम्बर 2012	1,994.3	423.6	7.92 - 14.00
15 दिसम्बर 2012	2,152.4	548.3	8.05 - 14.46

12. चुनिंदा मुद्रा बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर

(₹ बिलियन)

मद	समाप्त सप्ताह		
	30 दिसम्बर 2011	21 दिसम्बर 2012	28 दिसम्बर 2012
	1	2	3
1 मांग मुद्रा	290.8	220.9	251.8
2 नोटिस/सावधि मुद्रा	79.1	85.8	119.5
3 सीबीएलओ	555.7	678.9	627.2
4 बाजार रिपो	311.4	490.2	694.1
5 कारपोरेट बांड में रिपो	—	0.5	—

13. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल

(₹ बिलियन)

28 दिसम्बर 2012 को	प्रमुख धारक			कुल
	बैंक	प्राथमिक व्यापारी	राज्य सरकारें	
	1	2	3	
14-दिवसीय	—	—	872.9	878.9
91-दिवसीय	584.1	7.7	559.2	1,258.4
182-दिवसीय	526.5	2.5	2.4	652.4
364-दिवसीय	825.9	2.0	3.8	1,244.6
सीएमबी	—	—	—	—

14. भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा लिए गए बाजार उधार

(अंकित मूल्य ₹ बिलियन में)

मद	जुटाई गई समग्र राशि			जुटाई गई निवल राशि		
	2012-13 (28 दिसम्बर 2012 तक)	2011-12 (30 दिसम्बर 2011 तक)	2011-12	2012-13 (28 दिसम्बर 2012 तक)	2011-12 (30 दिसम्बर 2011 तक)	2011-12
	1	2	3	4	5	6
1. भारत सरकार	4,980.0	3,790.0	5,100.0	4,073.8	3,054.2	4,364.2
2. राज्य सरकारें	1,251.2	1,021.6	1,586.3	1,096.8	872.5	1,366.4

स्पष्टिकरणात्मक टिप्पणियां भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन में उपलब्ध हैं।

उपर्युक्त जानकारी इंटरनेट पर <http://www.wss.rbi.org.in> से सीधे प्राप्त की जा सकती है।समय श्रृंखला आंकड़े इंटरनेट पर <http://dbie.rbi.org.in> पर उपलब्ध हैं।

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक का एक वर्ष के लिए शुल्क (डाक व्यय सहित) भारत में ₹ 950 तथा विदेश में 45 अमरीकी डॉलर है।

श्री संजय कुमार हाँसदा द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, शहीद भगतसिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001 की ओर से मुद्रित एवं प्रकाशित और प्रिंटोग्राफी सिस्टम्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, 28 मुंबई समाचार मार्ग, राजा बहादुर बिल्डिंग, फोर्ट, मुंबई - 400 023 में मुद्रित।

संपादक श्री संजय कुमार हाँसदा।